

1. आवेदक उपलब्ध सेवाओं पर लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्नकों की सूची, सेवा शुल्क इत्यादि को "अनिवार्य संलग्नक" लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकता है।
2. आवेदक अपना नवीन रजिस्ट्रेशन "नए यूजर के लिये पंजीकरण करें" लिंक के माध्यम से करेगा।
3. तत्पश्चात एक नया पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त अनिवार्य/वैकल्पिक फील्ड्स को भरेगा जिसमें लॉग-इन आई.डी., नाम लिंग, जन्म तिथि, पता, जिला, पिन कोड, मोबाईल नं0, ई-मेल आई.डी., सुरक्षा कोड सम्मिलित है।
4. यदि आवेदक पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है तो वह "पंजीकृत उपयोगार्थ के लिए लॉगिन" लिंक पर क्लिक करने के उपरान्त पूर्व में प्राप्त अपने यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल पर लॉग-इन करेगा।
5. रजिस्ट्रेशन के पश्चात One Time Password (OTP) आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदक सृजित यूजर आई.डी., One Time Password (OTP) एवं सुरक्षा कोड के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाईन लॉगिन करेगा।
7. तत्पश्चात आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः लॉगिन पेज पर जाकर अपनी सृजित यूजर आई.डी. एवं नये पासवर्ड के साथ लॉग-इन करेगा।
8. आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें लगने वाले आवश्यक संलग्नकों का (JPEG/JPG/.GIF/.PNG) अधिकतम साईज 100KB हो, तथा नवीनतम फोटो JPEG जिसका अधिकतम साईज 50KB हो, उसके पास उपलब्ध हो। उपलब्ध फोटों एवं संलग्नक का साईज देखने व कंप्रेस करने के लिए क्लिक करें।
9. आवेदक उपलब्ध सेवाओं को प्राप्त करने हेतु उससे सम्बन्धित फार्म में सम्बन्धित जानकारी भरेगा।
10. आवेदक उपलब्ध सेवाओं पर लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्नकों की सूची को "अनिवार्य संलग्नक" लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकता है।

11. तत्पश्चात आवेदक आवेदन-फार्म पर उपलब्ध सभी फील्ड्स में एण्ट्री करेगा एवं वह स्वप्रमाणित घोषणापत्र के साथ अन्य आवश्यक संलग्नकों को पोर्टल पर अपलोड करेगा।

12. आवेदक सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता के उपरान्त आवेदन फार्म को सबमिट करेगा।

13. आवेदन भरने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. तत्पश्चात आवेदक सेवा से सम्बन्धित शुल्क को जमा करने हेतु "सेवा शुल्क भुगतान" लिंक पर क्लिक करेगा जिसके पश्चात आवेदन को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जायेगा जिसमें आवेदक आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रांजेक्शन चार्ज का भुगतान करेगा।

15. आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा आवेदन-फार्म सबमिट करने के 24 घण्टे के अन्दर पेमेंट गेटवे की मदद से सेवा शुल्क का भुगतान कर लिया जाये अन्यथा उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

16. आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त एक यूनिक बैंक ट्रांजेक्शन आई.डी. उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर पेमेन्ट सफल नहीं हुआ है अथवा आवेदन सुरक्षित करें लिंक पर क्लिक नहीं हुआ है तो कृपया सेवा शुल्क भुगतान आप्शन पर जाकर आवेदन पत्र संख्या (Application Number) चुनें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदन को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जायेगा अथवा सफल पेमेन्ट की दशा में पुनः बैंक ट्रांजेक्शन आई.डी. उपलब्ध करा दी जायेगी।

17. तदोपरान्त आवेदक पावती पत्र (Acknowlegement Slip) को प्राप्त करने हेतु "Generate Acknowlegement" लिंक पर क्लिक करेगा तथा पूर्व में प्राप्त यूनिक आवेदन पत्र संख्या एवं बैंक ट्रांजेक्शन आई.डी. के माध्यम से आनलाईन रसीद को सुरक्षित करेगा।

18. तत्पश्चात आवेदक द्वारा पावती पत्र (Acknowlegement Slip) को डाउनलोड एवं सुरक्षित करने के उपरान्त पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
19. आवेदक आवेदन की अद्यतन स्थिति को "आवेदन की स्थिति" पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकता है।
20. प्रमाणपत्रों/सेवाओं को निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समय-सीमा पूर्व में ही निर्धारित की है, जिसके क्रम में आवेदन के सही पाये जाने के उपरान्त निर्गत प्रमाणपत्र/सेवा सूचना को आवेदक के रजिस्टर्ड इन्बॉक्स पर "निस्तारित आवेदन" लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
21. पोर्टल द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत होने के उपरान्त उसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
22. आवेदक अपने द्वारा किये गये आवेदनों की सूची "आवेदन की सूची/View Application" लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकता है।
23. आवेदक अपने द्वारा किये गये आवेदनों के निस्तारण के उपरांत निर्गत प्रमाणपत्र/स्वीकृत या अस्वीकृत पत्र "निस्तारित आवेदन" लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकता है।
24. आवेदक अपने द्वारा किये गये आवेदनों की रसीद की प्रतिलिपि "रसीद की प्रतिलिपि" लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र संख्या डाल कर प्राप्त कर सकता है।
25. आवेदक समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त "लॉग आउट" लिंक पर क्लिक कर लॉग आउट कर सकेगा।